

Date: August 29, 2020

To BSE Ltd. 25<sup>th</sup> Floor, P. J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400 001

Scrip Code: 503162

**Sub: Newspaper Advertisement** 

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement, published in- English-- in "Indian Express" and in Hindi in "Jai Rajasthan" newspapers on August 29, 2020 in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Reliance Chemotex Industries Limited

Chirag Gupta Company Secretary

M. No: 50843

#### EXPRESSION OF INTEREST (EoI)

GAIL (India) Limited (GAIL) invites Expression of Interest (EoI) from eligible bidders for "Empanelment of Technical / Engineering Consultants for various Developmental projects/ schemes at GAIL-Pata petrochemical complex", against Tender No. GAII /PATA/TS/2020-21/FPCM as detailed be

No.         available on website from 1         Meeting of bit of	UAIL	-/FAIA/ 13/2	2020-21/LF CIVI	as detailed below.	
TS/2020- 2020 2020 at 15:00 2020 by			available on		Last date & time for submission of bid
21/EPCM   Hours (IST) at   Hours (   GAIL, Pata through   Digital Platform	1		- 0 '	2020 at 15:00 Hours (IST) at GAIL, Pata through	21 <sup>st</sup> September, 2020 by 16:00 Hours (IST)

For further details, please visit our Tender website (http://www.gailtenders.in).

For any queries, bidders may contact GM (TS), GAIL (India) Ltd, Pata Petrochemical Complex, P.O.: Pata, Dist. Auraiya - UP-206241, Ph. No: 05683-230283 E-Mail: shyamal.roy@gail.co.in

THINK DIGITAL, BE DIGITAL

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

PARADIP PORT TRUST e-TENDER CALL NOTICE

conditions in details.

VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF

TECHNOLOGY, BURLA, ODISHA-768018

TENDER CALL NOTICE

Sealed tenders are hereby invited from reputed and experience

firms for supply, installation and maintenance of various items

to Department of Mechanical Engineering, VSSUT Burla, in

the District of Sambalpur, Odisha. The interested firms/agencies/

suppliers/dealers/SSI Units can log on to the University Website

www.vssut.ac.in for verification of the other terms and

E-Tenders are invited on behalf of Paradip Port Trust for the work "Establishment of 400 Bedded Super Specialty Hospital at Paradip Port with an option to develop Medical College and further expansion of hospital on PPP basis" The last date & time of submission of tender: 14,10,2020 on 14:00 Hrs. For details, please refer our website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Chief Medical Office PPT/PR/184/20-21, DT.28.08.2020

BANK OF MAHARASHTRA, Zonal Office, Jaipur, 6thFloor, Fortune Heights, Ahinsa Circle, C-Scheme, Jaipur- 302001

Phone: 0141-2379903,905 Email id : dzmjaipur@mahabank.co.i PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT,2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) READWITH RULE 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described mmovable properties mortgaged/charged to the Bank(Secured Creditor) will be sold on " AS IS WHERE IS BASIS", " AS IS WHAT IS BASIS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" on 15.09.2020

Property Lot No.	Description of the Mortgaged Property	Earnest Money Deposit	Reserve Price		
1A	Commercial Plot No. S-4, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur,	Rs. 95,000/-	Rs. 9,56,026/-		
	Rajasthan admeasuring approx. 534.84 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.	(The property is Open plot) (Bid Multiplier is of Rs.10,000/-)			
1B	Commercial Plot No. S-5, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur,	Rs. 1,34,000/-	Rs. 13,40,625/-		
	Rajasthan admeasuring approx. 750.00 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.	(The property is Open plot) (Bid Multiplier is of Rs.10,000/-)			
1C	Commercial Plot No. S-6, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur,	Rs. 99,000/-	Rs. 9,93,063/-		
	Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.	(The property is Open plot) (Bid Multiplier is of Rs.10,000/-)			
1D	Commercial Plot No. S-7, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur,	Rs. 90,000/-	Rs. 9,02,785/-		
	Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.	(The property is Open plot) (Bid Multiplier is of Rs.10,000/-)			
1E	Commercial Plot No. S-8, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur,	Rs. 90,000/-	Rs. 9,02,785/-		
	Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.	(The property is Open plot) (Bid Multiplier is of Rs.10,000/-)			
	1A  1B  1C	Commercial Plot No. S-4, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 534.84 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.      Commercial Plot No. S-5, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 750.00 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.      Commercial Plot No. S-6, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.      Commercial Plot No. S-7, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.      Commercial Plot No. S-8, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.      Commercial Plot No. S-8, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in	Lot No.  1A Commercial Plot No. S-4, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 534.84 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1B Commercial Plot No. S-5, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 750.00 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1C Commercial Plot No. S-6, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1D Commercial Plot No. S-7, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1D Commercial Plot No. S-7, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1E Commercial Plot No. S-8, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1E Commercial Plot No. S-8, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.  1E Commercial Plot No. S-8, F-1 Block, Bhaskar Enclave II, Chosla, Tehsil Chaksu, District Jaipur, Rajasthan admeasuring approx. 555.56 sq.yds. in the name of Mr. Ashok Agarwal.		

Outstanding Amount - Rs.5,23,70,940/- (Five Crore Twenty Three Lakh Seventy Thousand Nine Hundred Fourty Rupees Only PLUS further interest @ 12.65% along with panel interest thereon w.e.f. 27.08.2020 in Cash Credit account .

Branch Office: Bank of Maharashtra, Gopalpura Byepass Branch, JDA Shop No.14, Hans Marg, Near Riddhi Siddhi, Gopalpura Byepass, Jaipur, Rajasthan 302008, 0141-2763218, bom1372@mahabank.co.in-Smt. Vibha Sharma-8956381496

1. M/S Madhur Mineral Water Plant (Borrower) Araji No. 120/3, Ban Ka Khera, thesil Kotri, Bhilwara,	
Rajasthan 2. Mr. Satya Narayan Jat S/o- Ram Kunwar	
Jat (Proprietor) 323, Sadar Bajar, Ban Ka Khera,	
Tehsil-Kotri, Bhilwara, Rajasthan 3. Smt. Durga W/O	
Satya Narayan Jat (Guarantor) 323, Sadar Bajar, Ban	
Ka Khera, Tehsil-Kotri , Bhilwara, Rajasthan 4. Mr.	
Ram Kunwar S/O Devi Lal Jat (Guarantor) 323, Sadar	
Bajar, Ban Ka Khera, Tehsil-Kotri, Bhilwara, Bajasthan	

Kh. 120/3, Ban Ka 72.000/-Kheda, Tehsil Kotri. 7,19,224/-District Bhilwara, (The property is in our Symbolic Rajasthan admeasuring Possession, We also have DM approx.243.00 sq.mtrs. permission for physical possession in the name of Mr. Ram (Bid Multiplier is of Rs.10,000/-)

Outstanding Amount - Rs.7,40,012/- (Seven Lakh Fourty thousand twelve Rupees Only) PLUS further interest @ 11.40% along with penal interest thereon w.e.f. 27.08.2020 in Term Loan account.

Branch Office: Bank of Maharashtra, Bhilwara Branch, Ground Floor, 8-L-1, R.C.Vyas Colony, Bhilwara, Rajasthan 311001 01482-234061, bom1346@mahabank.co.in — Shri Sanjeev Verma -9999668374

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link "https://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp

https://bom.auctiontiger.net and http://eprocure.gov.in/cppp" provided in the website STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002

The borrower/guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillar expenses before the date of auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Date- 27.08.2020

**RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES LIMITED** Regd. Office :Post Box No. 73, Village Kanpur, Udaipur-CIN : L40102RJ1977PLC001994

Sd/- REGISTRAR

Phone : 0294-2490488
Website: www.reliancechemotex.com, E-mail : cs@reliancechemotex.com INFORMATION REGARDING 42nd ANNUAL GENERAL MEETING OF RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES LIMITED

In compliance with the applicable provisions of Companies Act 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020)79 dated May 12, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), the 42nd Annual General Meeting ('AGM') of Reliance Chemotex Industries Limited ('Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio /isual Means ('OAVM') on Monday, September 28, 2020 at 10:15 A.M. to ransact the businesses that will be sent forth in the Notice of AGM

In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice and Annual Report will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with Company/ Depository Participants (DPs). The Notice and Annual Report will also be available on the website of Company i.e. www.reliancechemotex.com and on the website of stock exchange at www.bseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

Members holding shares in physical form who have not registered their email id are advised to send an email to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Big Share Services Private Limited at investor@bigshareonline.com. Email communications should contain all details of the Shareholders viz. Name, Full Postal Address, Email-id, Mobile Number in addition to the Registered folio number, Share Certificate Number/s and Distinctive Numbers. Scan copy of PAN and Aadhaar Card should be attached to the email being sent as above.

Shareholders holding shares of the Company in electronic/ dematerialized form but who have not yet incorporated their email address in their respective Demat Account are requested to approach their respective Depository Participants for updating the same.

Members may note that the Board of Directors of the Company at their meeting held on June 26, 2020 have recommended a final dividend of Rs. 1/- per equity share having nominal value of Rs. 10/- each for the financial year ended on March 31, 2020. The final dividend, once approved by the members in the ensuring AGM, will be paid electronically within 30 days through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For those shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent out to their registered address once the normalcy resumes. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update KYC with their depositories (where share are held in dematerialisation form) and with Company's RTA (where share are held in physical form) to receive the dividend into their bank account.

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the notice. Additionally the Company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/e-voting at the AGM shall be provided in the notice.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

For: Reliance Chemotex Industries Limited (Chirag Gupta) Place: Udaipur **Company Secretary** Dated: 28-08-2020

> I. Neha Jamwal is legally wedder Spouse of No. 14936518L Rank NK Arjun Singh Presently Residing at Village-Fathu Chak Post.- Satriyai Camp, Tehsil R.S. Pura, Distt. Jammu (J&K) Pin-181102 have changed my name from Neha Chib to Neha Jamwal vide affidavit no BY317181 date 11-08-2020 at



■ Fullerton FULLERTON INDIA HUME PINANCE COMPANI. Land 1400 076
■ Grihashakti Corporate Office: Floor 5 & 6, B Wing, Supreme IT Park, Supreme City, Powai, Mumbai 400 076 Regd. Office: Megh Towers, Floor 3, old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduravoyal, Chennai-600095

POSSESSION NOTICE

[APPENDIX IV (SEE RULE 8(I)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of M/s. Fullerton India Home Finance Company Limited a Housing Finance Company (duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI) (hereinafter referred to as "FIHFCL"), Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub section (4) of section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the Charge of Fullerton India Home Finance Company Limited for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to

30	deem the secured assets.							
Sr. Io.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower (s)	Description of Immovable Property is as under	Demand Notice Date & Amount	Date of Physical Possession				
1.	(LAN: 602607210464320) 1. Pankaj Kumar Meharwal 2. Kalpana Sita Ram 3. Dayal Grah Udhyog Add 1: Plot No. E 41, Vikas Nagar E, Heera Pura, Power House Ke Piche, Ajmer Road Jaipur, Rajasthan-302012 Add 2: Plot No. 86, Subham Vihar-IV, Gram Bindayaka, Sirsi Road, Jaipur- 302021	Mortgage by deposit of the title deed of the Immovable Property situated at Plot No-86, Shubham Vihar-IV, Th. Bindaya, Jaipur, Raj., Admeasuring 88.8 sq.yd. (Hereinafter Refered as the said property) <b>Surrounded By Boundaries:</b> East: By "Road 30", West: By Plot No.105, North: By Plot No.85, South: By Plot No.87	21,44,665.13/- (Rupees Twenty One Lakh Forty Four Thousand Six Hundred Sixty Five and Thirteen Paisa Only)	27.08.2020				
Place : Jaipur Sd/- Authorised Officer Date : 27.08.2020 <b>M/S- Fullerton India Home Finance Company Limit</b>								

Branch Office: ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building, Malviya Naga JLN Marg-Jaipur 302017 () ICICI Bank

PUBLIC NOTICE - TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

[See proviso to rule 8(6)]
Notice for sale of immovable assets E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Date: 27.08.2020

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Ltd. will be sold on "As is where is", "As is what is",

Sr. No.	Name of	Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any		Earnest	Date and Time of Property Inspection	Date & Time of Auction
1.	(B) Mr. Krishan Gopal Shekhawatia (Borrower) Meena Agarwal, Anshul Agarwal (Co-Borrower) Loan no: LBJAl00002854903, LBJAl00002854918	Unit No F 2, First Floor Block B Shri Sai Kripa, Appartment 2 Plot No B 53 Shri Dadudayal, Nagar Kalyanpura Sanganer, Jaipur 302020 Super Built-Up Area- 1550 Sq Ft	( <b>D)</b> Rs 54,26, 344/- as on Aug 24, 2020	Rs. 25,00, 000/- Rs. 2,50, 000/-	(F) Sept 18, 2020 from 11:00 AM To 2:00 PM	Sept 30, 2020 from 11:30 AM onwards.

The online auction will be conducted on website (URL Link-https://disposalhub.com) of our auction agency M/S NexXen Solution Private Limited. The Mortgagors/ noticee are given a last chance to pay the total dues with further interest till September 29, 2020 before 05:00 P.M else these secured assets will be sold as per

The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer Column E) at ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building, Malviya Nagar JLN Marg-Jaipur 302017. and thereafter they need to submit their offer through the above mentioned website only on or before **September 29, 2020** before **05:00 P.M** along with scan image of Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. Kindly note, in case prospective bidder(s) are unable to submit their offer through the website then signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Ltd. Regional Office Jsel Building, Malviya Nagar JLN Marg-Jaipur 302017 on or before September 29, 2020 before 05:00 P.M. Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalised/Scheduled Bank in favour of "ICICI Bank Limited" payable at Jaipur

For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the auction or submission of tenders, kindly contact ICICI Bank Limited on 8584874809 ,7230004964 or M/s NexXen Solutions Private Limited on 9710029933/9810029926/01244233933

Please note that Marketing agencies agencies 1. NexXen Solution Private limited 2. Augeo Asset Management Pvt Ltd have also been engaged for facilitating the sale of this property

The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons.

For detailed terms and conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Date: August 29, 2020

# **ODISHA STATE HOUSING BOARD**

**Bid Invitation Notice** No - 5000

File No- EB-I/44(P-I)/2020

Date- 28.08.2020

### Bid Identification Number/ 04(A) /CE/OSHB/2020-21.

Odisha State Housing Board invites Developers for Development of an Integrated Residential cum Commercial Complex over an area of 6.589 Acre of land at Patrapada, Bhubaneswar, Odisha through



#### The Project

Odisha State Housing Board (OSHB) proposes to develop an integrated residential cum commercial complex in Bhubaneswar. OSHB plans to develop the projects on Public Private Partnership mode and intends to select a Developer through e-auction of the land who shall be responsible for infrastructure development, marketing, operation and maintenance of the projects. The Developer shall have to develop a minimum of 2/3rd of the total built up area for residential use and maximum of 1/3rd of the total built up area for commercial use. OSHB has identified a strategically located piece of land spread over an area of around 6.589 Acre in Mouza Patrapada, under Bhubaneswar Tahasil, Khurda, Orissa for the Project.

Reserve price of the land is fixed at Rs 66,62,00,000.00 ( Rupees Sixty Six Crores Sixty Two lakh) only

#### **Selection Process**

The Developer would be selected through an open competitive (e-auction) double stage bidding process. Intending Bidders/ Developers are hereby invited to submit their Bids for the development of the projects. The details eligibility criteria are provided in the Request for Proposal document.

#### Issue of Request for Proposal (RFP) Document

RFP document, detailing the project information and requirements can be obtained from OSHB office from 31.08.2020 onwards till 3.00PM on 25.09.2020 on payment of a non-refundable cost of Rs. 53,100.00 (Rupees Fifty three thousand one hundred) only, inclusive of GST @ 18%. It can also be downloaded from www.oshb.org. In this case, a non-refundable demand draft of Rs. 53,100.00 (Rupees Fifty three thousand one hundred) only in favour of "Orissa Housing Board Fund" payable at Bhubaneswar shall be submitted along with the Bid towards cost of the RFP document.

The completed RFP along with required documents should reach OSHB office on or before 25.09.2020 at 15:00 hrs. by registered post/speed post/courier only. No drop box facility is available and hand delivery is not allowed. OSHB will not be responsible for any postal/courier delay. The technical bids will be opened on Dt.28.09.2020 at 11.00 hours in the OSHB conference hall in the presence of bidders or their authorised representatives.

OSHB reserves the right, without any obligation or liability, to accept or reject any or all the RFPs at any stage of process, to cancel or modify the process or any part thereof or to vary any or all the terms and conditions at any time, without assigning any reason whatsoever.

Any modification/amendment/corrigendum, if any, to the RFP document, shall not be advertised in the newspapers but shall be posted in the website only.

#### Contact Persons:

Mr. Narayan Majhi, Executive Engineer (PPP), OSHB, pe1@oshb.org, +91 9437226043

Completed RFP may be sent to

The Housing Commissioner-cum-Secretary

Orissa State Housing Board (OSHB), A/32, Unit III, Sachivalaya Marg Bhubaneswar - 751 001, Orissa, India.

Tel No: 0674 - 2393524, 2393277, 2393525 I Fax No: 0674 2393952

Sd/-**Housing Commissioner cum Secretary** 

4	For	<b>All Advertisement Booking</b>
		Call: 0120-6651214



Punjab National Bank, Circle Recovery Centre Plot no. 802, Angira Darpan, 1st Floor, Chopasani Road, Jodhpur-342003 Tel No 0291-2616822, 2635179 Mob. 9813021248 E-Mail- cs80255@pnb.co.in

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securtisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with provis to Rule 8(6) & 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the beli described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic/Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Punjab National Ban Secured Creditor, will be sold on "As is where is", As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secure

reditor from the respective borrower (s) and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the below against the respective properties.

			Description of the immovable properties mortgaged/ Owner's Name (Mortgagors of property/ies)		(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002 (B) Outstanding amount as on (C) Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002 (D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Coustructive		(Rs. in Lacs)	Date/time of	Details of the encum- brance known to the secured creditors
_ot							Date of deposite) (C) Bid Increase Amount (D) Date & Time		
no.									
	MGH, Jodhpur		1. All that part and parcel of the pr	operty of	A) 07/07/2017		A) Rs.166.50 Lacs		
1.	M/s Suncity Handicrafts (P) Ltd.,		M/s Kikan Industries Proprietor Mr. Sanjay Bhansali consisting of land & I		,	I1 oo	B) Rs. 16.65 Lacs		
	M/s Suncity Handicrafts (P) Ltd., D-77, P. Opposite Lok Seva Hospital, Jodhpur. M/s Kikan Industries Proprietor Sanjay Bh. M/s Aisani Ilnd Phase, Jodhpur. Narendra Singh, 339, Ratdi, Nadi Kankani, Tehsil-Luni, Sohan Chand Bhansali, 129, Roop Rajat To Pal Road Jodhpur. Sharad Bhansali, Towenship. Phase Ilnd, Pal Road Jodhpur. 129, Roop Rajat Towenship. Phase Ilnd, Pal Road Jodhpur. Sanjay Bhansali, Add Towenship. Phase Ilnd, Pal Road Jodhpur. Sanjay Bhansali, Add Towenship. Phase Ilnd, Pal Road Jodhpur,	ansali, E-281 (B&C), a Kanwar W/o Pep Jodhpur. wenship, Phase IInd, , 129, Roop Rajat Aparajita Bhansali Road Jodhpur. ship. Phase IInd, Pal	building, structures, ere installations, etc. situated at Plc 281, (B & C), MIA, Basni Illnd Jodhpur. Admeasuring 980 Sq Mc 2.All that part and parcel of the pr Mrs. Narendra Kanwar W/O Mr. P.	ctions, ot No. E- d Phase, eter. operty of ep Singh ections, ta No. 3, Kankani,	on 30.06.2017 + ft interest w.e.f. 01.07 & Expenses until pay made in full. C) 02.06.2018 D) Physical Possessic	irther 2017 ment	<b>D)</b> 05-09-2020	14-09-2020 From 11.00 AM to 01.00PM	Not Known
_	MGH, Jodhpur		1. All that part and parcel of the	Δ	\) 26-09-2019		A) Rs. 796.5 Lacs		
2.	M/s Rama Sheets Pvt. Ltd.,		property of M/s Rama Sheets Pvt. Ltd consisting of structures,		5,80,94,253.61 as 2	4-09-	B) Rs.79.65 Lacs		
	M/s Rama Sheets Pvt. Ltd., Nitin Gupta, Neeta Gupta, Pukhraj Gupta, Gyana Devi, P.R. Gupta HUF Address, G-81, Vrindavan, Shastri Nagar, Jodhpur, Raj. M/s Shiva Industries, Nitin Gupta, Neeta Gupta, Pukhraj Gupta, Gyana Devi, P.R. Gupta HUF Address: Block No. 7/8, Khasra No. 1096, 740/17, Jodhana Industrial Area, Basni Ilnd Phase, Jodhpur (Raj.). M/s Shiva Steels Nitin Gupta, Neeta Gupta, Pukhraj Gupta, Gyana Devi, P.R. Gupta HUF Address: Block No. 7/8, Khasra No. 1096, 740/17, Jodhana Industrial Area, Basni Ilnd Phase, Jodhpur (Raj.).		erections, installations, etc. pvt. L situated at B-31 & B-32,RIICO Rs. 3, Industrial Estate, New Power House Road, Jodhpur, Rajasthan Admeasuring about 2035.35 sq. Mtr.  C) 1		Ltd. & Shiva Industries. 3,35,33,432/- as on 28.09.2019. 5 Shiva Steels I Rs. 9,16,27,685.61 with er interest from 01-09-2019 payment in full. 19-02-2020 Physical Possession		<b>D)</b> 05-09-2020 From 11.00 AM	00 114-U9-ZUZU	Not Knowr
3.	Borunda, Distt. – Jodhpur		All that part and parcel of the pro of Smt. Shushila Lakhotiya W/o	. ,	) 22-05-2019		A) Rs. 25.20 Lacs	14-09-2020	
J.	Sushila Lakhotiya W/o Ram Gopal Lakhot Address:- Shanti Priya Colony, Borunda, Dist Vijay Lakhotiya S/o Ram Gopal Lakhotiya Address - Shanti Priya Colony, Borunda, Distt	t. Jodhpur&	Ram Gopal Lakhotiya consistir structures, erections, installat etc. situated at Plot No. 08, Lawa Bas, Shanti Priya Colony, Born Distt. Jodhpur, Rajast Admeasuring 1250 Sq. Ft	ng of 20 in ro Ka unda, han D	) Physical Possession	ırther	C) Rs. 0.10 Lacs D) 05-09-2020 From 11.00 AM to 03.00 PM	From 11.00 AM to 01.00PM	Not Known
4.	Ratanada colony		parcel of property of Karan h Meenu Maheshwari consisting	A) 24-	06-2019		Rs. 36 Lacs		
4.	M/s Rukmani Tyres proprietor Karan Maheshwari S/o Meenu Maheshwari M/s Rukmani Tyres (through proprietor Sh. Karan Maheshwari), Plot No. 18/17 B, In samarthi Market, Choupasani Road Jodhpur. Nikhil Maheshwari & Dhruv Maheshwari Address Plot No. 18/17 B, In sarnarthi Market, Choupasani Road Jodhpur.	S/o Meenu Maheshwari Tyres (through proprietor Sh. wari), Plot No. 18/17 B, In et, Choupasani Road Jodhpur.  No. 18/17 B, In sarnarthi asani Road Jodhpur.  1		ations, etc. situated at plot No. A- 5 sushant City, Village Bhakrasani Suring 6395 Sq. ft.  parcel of property of Nikhil h Meenu Maheshwari consisting ations, etc. situated at plot No. A- 5 sushant City, Village Bhakrasani uring 6122 Sq. ft. parcel of property of Dhruv h Meenu Maheshwari consisting ations, etc. situated at plot No. A-		2,09,81,974.88 as 30- 9 + payable with further w.e.f.01-06-2019  11.00 AM  A) Rs. 34  C) Rs. 0.0  B) Rs. 3.4  C) Rs. 0.1  11.00 AM  A) Rs. 33.1  B) Rs. 3.3  C) Rs. 0.7  C) Rs. 0.7		to 01.00PM	Not Known

11.00 AM to 03.00 PM TERMS AND CONDITIONS:- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions. 1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions. 2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule nereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in thi proclamation. 4. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on 14-09-2020 as per timing: nentioned in the table. 5. For detailed term and conditions of the sale, please referwww.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app,www.pnbindia.in. Authorized Officer (Ram Singh Regar) Punjab National Bank, Secured Credito

Jaipur

STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

# पंचांग राशिफल





राजसमन्द मो. 9928045062 9414354031 jayjyotishratn@ amail.com वेब. vww.jay.jyotish.ratn.in

#### २९ अगस्त, २०२०

भाद्रपद शुक्ला एकादशी शनिवार संवत् २०७७ पूर्वाषादा नक्षत्र आयुष्मान योग विष्टि करण धनु चन्द्रमा १९.१२ तक, शाके १९४२ भाद्रपद ७ सू. ३. ६.१९ अस्त १८.५४, भद्रा ८.१८ तक, पद्मा एकादशी व्रत, वामन जयन्ती।

**मेष**- भाई-बन्धुओं से अनुकूलता रहेगी, सन्तान-पक्ष की ओर से चिन्तित नहीं रहेंगे तथा सम्मानजनक समय प्रतीत होगा।

वृष- कार्य-शैली में परिवर्तन लाभप्रद नहीं रह सकेगा, वृथा विवाद पैदा हो सकेगा तथा गणमान्य व्यक्ति आपको तव्वजो नहीं देंगे।

**मिथुन**- बुद्धि-बल के प्रभाव से लाभ अर्जित कर सकेंगे, अपने कार्यों की सफलता से उत्साहित रहेंगे तथा नये मित्र मिल सकेंगे।

कर्क- हंसी-खशी के माहौल में रहेंगे, आकस्मिक लाभ के योग बन सकेंगे तथा किसी से हुई अनबन को मिटाया जा सकेगा।

**सिंह**- मानसिक शान्ति के साथ सेहत भी अनुकूल रहेगी, संतति को उन्नतिप्रद अवसर मिलेंगे तथा कोई नई योजना बना सकेंगे।

**कन्या**- दाम्पत्य-जीवन सुखद नहीं रहेगा, किसी लाभप्रद सौदे में हाथ नहीं डाल सकेंगे तथा घरेलु खर्च को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे।

**तुला**- कर्ज चुका सकने में सक्षम रहेंगे, पारिवारिक समस्या मिट जाने से चिन्ता नहीं

रहेगी तथा शभ कार्य की योजना बना सकेंगे। **वृश्चिक**- मन में हर्ष रहेगा, मित्रवर्ग आपके सहयोग का आभार मानेंगे तथा स्वास्

**धनु**- यात्रा सुखद व लाभप्रद रहेगी, कारोबार ठीक चलेगा तथा शुभ समाचार के साथ

**मकर**- मन में उत्साह नहीं रहेगा, मित्रों व रिश्तेदारों का सहयोग नहीं मिल पायेगा

तथा किसी महत्वपूर्ण लाभ से वंचित हो सकेंगे। कम्भ- प्रारब्ध आपका परा साथ देगी, चल रहे कार्यों में कोई रुकावट नहीं आयेर्ग

तथा हर तरफ से उन्नतिप्रद समय महसूस होगा। मीन- सन्तान-पक्ष की वैवाहिक चिन्ता दूर होगी, स्वास्थ्य में तरो-ताजगी रहेगी तथा

#### संक्रमित के सम्पेक में आए युवक में कोरोना की पुष्टि

धरियावद, 28 अगस्त। कस्बे में शुक्रवार को एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई जिला चिकित्सालय स्थित कोविडकेयर सेंटर पर भर्ती हैं खंडप्रभारी एसके जैन के अनुसार शुक्रवा को पॉजिटिव मिला युवक गत दिनों संक्रमित मिले युवक के परिवार का सदस्य हैं।

### बांसवाडा के कोरोना योद्धा कालुराम ताबियार कोरोना नर्स ग्रेड द्धितीय, पाजिटिव वार्ड में दे रहे हैं सेवा पत्नी मोनिका मीणा एमबी हास्पिटल में दे रही नर्सिंग सेवा

दिनांक : 29 अगस्त, 2020

बांसवाडा, 28 अगस्त। बांसवाडा के सालियाँ गांव के कोरोना योद्धा कालराम ताबियार इएसआई सी हास्पिटल मे कोरोना पाजिटिव वार्ड में कोरोना हराने में अपनी सेवा दे रहे है तो पत्नी मोनिका मीणा एमबी हास्पिटल मे नर्सिंग सेवा दे रही हैं।कालुराम ताबियार ने बताया कि 13 अगस्त से कोविड -19 डेडीकेटेड अस्पताल इएसआईसी उदयपुर में लगातार सेवाए प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ पोजीटीव मरीजों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर कोरोना से बचने व स्वस्थ होकर जल्दी घर पर जाने की ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आते हैं वे मरीजों मानसिक तौर पर मजबूती प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ



करते हैं वार्ड में जब इंजेक्शन ,ईसीजी, आक्सीजन सेचरेशन .पल्स . टेंपरेचर व सुगर लेवल इत्यादि कार्य अपनी ड्यूटी के दौरान करते हैं तब मरीजों को उनके अकेलाह महसुस नहीं होने देते हैं। कुछ पोजीटिव मरीज जब स्वस्थ होकर घर लौट रहे होते हैं तो जीवन के बेहतरीन

अनभव के रूप में कछ यादगार पल फोटो के रूप में संजोए हुए रखते हैं। कालराम ताबियार राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश सचिव पर भी कार्य कर रहे है। गांव में बुजुर्ग माता पिता से समय मिलने पर विडियों कॉल से बात कर परिवार व स्वास्थ्य कि जानकारी लेते हैं।

# प्रदेश में डेयरी सेक्टर को देंगे बढ़ावा :मुख्यमंत्री



जयपर, 28 अगस्त। मख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रा%य सरकार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को पूरा प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि किष एवं प्रापालन ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मख्य आधार है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भीलवाडा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के करीब 75 करोड़ रूपए की लागत से बनाए जाने वाले आधुनिक तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। अगस्त 2022 तक तैयार होने वाले इस संयंत्र

की क्षमता 5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। राज्य सरकार का खाद्य प्रसंस्करण

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी

फसलों का लाभकारी मुल्य दिलवाने तथा आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की डकाई स्थापित करने पर अब किसानों को 10 हैक्टेयर तक जमीन के भ-रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विस्तार की भरपूर संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होगा कि दग्ध उत्पादन, संकलन एवं विपणन का काम और तेजी से हो। सरस डेयरी देश में एक बड़ा मकाम हासिल करे।

सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में नेहरूजी का बड़ा योगदान

श्री गहलोत ने कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन को मजबत करने में पर्व प्रधानमंत्री स्व. जवाहर लाल नेहरू का बड़ा योगदान रहा है। उनकी दरदर्शिता का परिणाम है कि दसरे मल्कों पर निर्भर हमारा देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ सका। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के प्रयासों से देश में हरित क्रांति और

तेश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका और डेयरी के क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति हुई। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए स्व. वर्गीस करियन के योगदान को भी याद किया। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना के इस समय में किसान एवं पशपालक देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती एवं पशुपालन के परम्परागत क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती रूचि अच्छा संकेत है। गोपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया ने कहा कि कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बावजूद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों एवं पशुपालकों के हित में लगातार कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान में करीब 33 हजार सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें से करीब 15 हजार डेयरी क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष श्री दिलीप रथ ने कहा कि राजस्थान में डेयरी विकास के क्षेत्र में उगेखनीय काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मख्यमंत्री दग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को 2 रूपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाना स्वागत योग्य निर्णय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के डेयरी विकास में एनडीडीबी

#### आज रहेगी बिजली बन्द

सलूम्बर, 28 अगस्त। शनिवार को सलुम्बर नगर के चूंगीनाका फीडर की विधत आपर्ति सबह 6 बजे से सबह 10 बजे तक बाधित रहेगी। विभाग के कनिष्ठ अभियंता मयंक डामोर ने बताया कि सलुम्बर नगर के चुंगीनाका फीडर पर केबल इंटालेगन कार्य एव डबल सर्किट सम्बंधित कार्य होने के कारण शनिवार को दिन दयाल कॉलनी,नगर पालिका कार्यालय, माना कि सेर, एव रायकिया कॉम्लेक्स क्षेत्र में सहित आसपास क्षेत्र में बिजली बंद रहेंगी।

#### सुओरो के आतंक से कर्षक परेशान, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष को सौपा जापन

सलूम्बर 28 अगस्त। सलूम्बर के वार्ड नम्बर एक में किसानों के खेतों में सअरों के आतंक से हो रहे कषको ने नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी के नाम निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वार्ड नम्बर कृषको के दो बीघा खेतो में मका बोया जिसमे सुअर खेतो में जा कर मक्के की खेती को नुकसान पहुचाना है जिसको लेकर कृषको ने कहा कि इन सुवरों के मालिक एव नगर पालिका इन आवारा सवरों को पकड़ कर खेतों में हो रहे नुकसान से बचाने की माग की। इस मौके जगदीस मीणा, भीमराज, होमा,भवर लाल, नाथू लाल,रोड़ा मीणा,राजू मीणा, खेमराज मीणा सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

#### भाजपा का हगा बोल फेसबुक पर लाईव चर्चा की

धरियावद, 28 अगस्त। राज्य की गहलोत सरकार के विरूद्ध एवं जनहित के मुद्धें को लेकर धरियावद भाजपा एवं लाकेश्वर महादेव मंदल द्वारा सरकार के खिलाफ 28 अगस्त से 4 सितम्बर तक आयोजित होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को धरियावद विधायक गोतमलाल मीणा एव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गी ने फेसबुक पर लाईव होकर विधानसभा के भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की भाजपा मिडियाप्रवक्ता राकेश वीरवाल ने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार द्धारा कोरोनाकाल में बिजली दरों में बढोत्तरी एवं विभिन्न शुल्क लगाए जाने के विरोध में 31 अगस्त को भाजपा मंडल धरियावद एवं लाकेश्वर महादेव मंडल के सयुक्त तत्वाधान में विघुत विभाग कार्यालय धरियावद के बाहर धरना प्रर्दशन के साथ सरकार का पतला दहन

#### कटी पंतगी के लिये अकबर कितना तंग

बिना दर की सोच के, जो खेला शतरंज। नहीं बचा वो फिर कभी, करने लायक रंज।। तब तक मजा उड़ान का, जब तक डोरी संग। कटी पतंगों के लिये, अम्बर कितना तंग।। वर्तमान का हो भले. कडा-कसैला स्वाद। लौटा करता है विगत, बन कर मीठी याद।। कैसे करूं विकास का, भारत बता बखान। भूख-गरीबी-कर्ज से, मरता जहां किसान।।

उसके इक दुखती हुई, नस पर रक्खा हाथ। दुखती रहीं तममा ही, नसें बदन की साथ।

-डॉ. गोपाल राजगोपाल, उदयपुर

#### ग़ज़ल

#### दर पे मेरे अब मय खाने आते हैं

दर पे मेरे अब मय ख़ाने आते हैं। देखें कब तक होश ठिकाने आते हैं।। साथ में अपने तेरी यादों को लेकर। वापस मुड़ के गुज़रे जमाने आते हैं।। कहां समझ पाती है पागल नींद मेरी। ख़्त्राब तो अपना दिल बहलाने आते हैं।। मयखाने रस्ते में मिलते हैं पहले। बाद के रस्ते में बुतख़ाने आते हैं।। पैमानों की क़िस्मत में लिक्खा है कौन।

किसी क़िस्मत में पैमाने आते हैं।। उनकी शाख़ों से नज़दीक है मेरा अर्श मगर। पंछी मुझमें उड़ने उड़ाने आते हैं।

सुरेन्द्र चतुर्वेदी, अजमेर



#### अन्तरराष्ट्रीय (फीचर)

# क्या कमला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को विजयश्री दिला पाएंगी?

(मानवेन्द्र नाथ पंकज-हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा)

भारत में चुनावों के समय राजनेता तमाम लटके झटके दिखाते हैं। कोई जनेऊ धारण कर पण्डित बनने का स्वांग रचाता है, कोई कहता है कि मेरी नाक मेरी दादी की तरह है, कोई हनुमान भक्त होने का दावा करता है, कोई प्रांतीय चुनाव में भारत रत्न को मुद्दा बनाता है। ऐसे ही लटके-झटके अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। जब से कमला हैरिस का नामांकन रनिंग मेट के लिए राष्ट्रपति पद के डेमोकेटिक उम्मीदवार जो बाइ.डेन ने किया है तभी से राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में नए-नए रंग देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव प्रचार में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रमों का जमकर उपयोग कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि जीतने के बाद वे भारत का खलकर साध देंगे। वे अपने विरोधी सम्मीदवार की वामण्थी छवि को फोकस करते हुए उन्हें भारत विरोधी ठहरा रहे हैं। उनकी रनिंग मेट के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारत के विदेशमंत्री के इस फैसले को बनने के समय जो बाइडेन के विरुद्ध उनके बयानों का उल्लेख करते हुए, उन्हें दुष्टा तक कहने से संकोच नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हारे को हरिनाम। चहुंओर घिरे जो बाइडेन को याद आईं-कमला हैरिस। उन्हें चुनावी समर में उतारकर बाहुबली डोनाल्ड ट्रम्प को मुश्किल में डाल दिया। ट्रम्प के मोदी कार्ड के जवाब में कमला अपनी मां श्यामला गोपालन व उनके पिता / नाना से अपने लगाव का भावचित्र अमेरिकन मतदाताओं के सम्मुख प्रस्तृत कर रही हैं। परन्तु कमला हैरिस वर्तमान भारत सरकार की नीतियों-कश्मीर व मुसलमान सम्बन्धी, नए नागरिकता कानून की मुखर विरोधी रही हैं। अमेरिकन भारतीयों को रिझाते समय वे इस प्रकरण को ओझल कर रही हैं।

पिछले वर्ष कमला हैरिस स्वयं डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार पद की दौड़ में शामिल थीं और इस दौरान दो अवसरों पर उनसे कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के फैसले पर सवाल पूछे गए। दोनों अवसरों पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में दखल की जरूरत है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में भारत को धमकाते हुए कहा था कि हम कश्मीरियों को यह याद दिला दें कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। यदि जरूरत हुई तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस बयान को पाकिस्तान ने हाथों-हाथ लिया था।

इसी प्रकार भारत में जब नया नागरिकता कानून पास हुआ। तब भी अमेरिका के 5 भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका विरोध किया था । ये सांसद थे– राजा कृष्ण मूर्ति, प्रमिला जयपाल, रोहित खन्ना, अमी बेरा और कमला हैरिस। इन्हीं सांसदों में से एक प्रमिला जयपाल ने तो कश्मीर पर एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत करते हुए कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए तो उन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से इनकार कर दिया और कमला हैरिस प्रमिला जयपाल के समर्थन में भारत पर हमलावर हुईं। उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी सरकार के लिए यह कहना गलत है कि कैपिटॉल हिल पर होने

वाली बैठकों में कौन भाग लेगा। विडम्बना यह है कि कमला हैरिस और प्रमिला जयपाल जैसे अमेरिकी सांसद लगातार भारत पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। परन्त जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारतीयों का कत्लेआम करते है। तब भारतीय मूल के ज्यादातर अमेरिकी सांसद चुप्पी साध लेते हैं। जब पाकिस्तान में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है तब इन्हें काठ मार जाता है । चीन के सैनिक भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं और चीन को रोकने की कोशिश के दौरान भारत के सैनिक शहीद हो गए तब कमला हैरिस ने सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निमाया। जो बाइडेन का अमेरिकन मुस्लिमों के लिए एजेंडा भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जैसा है। इसमें पाक सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान के मुसलमानों के नर

संहार की अनदेखी की गई। जबकि

कश्मीर के आतंकवादियों व रोहिंग्या मुस्लिमों का खुलकर पक्ष लिया गया। इस पर अमेरिकन हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रिया से घबराकर अमेरिकन भारतीयों के लिए जो बाइडेन का एजेंडा लाया गया। परन्त यह नीतिपत्र शब्दों की बाजीगर्र लगता है। अमेरिकन हिंदुओं की आशाओं पर तुषारापात करता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का मुस्लिम एजेंडा जो भारत विरोधी है, पर बगैर स्पद्मीकरण दिए भारतीय विरासत पर गर्व का कमला दांव सच्चाई से मृंह मोडने जैसा है।

स्मरण रहे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या 41 लाख है जिनमें से 18 लाख के पास वोट डालने का अधिकार है. अमेरिका में कल वोटर्स की संख्या 15 करोड़ हैं. इनमें भारतीय मुल के लोगों की भागीदारी सिर्फ 1.2 प्रतिशत है । परन्तु इन 18 लाख में से 14 लाख भारतीय मूल के वोटर्स अमेरिका के उन 9 राज्यों में रहते हैं जहां पड़ने वाले वोट से ये का राष्ट्रपति कौन बनेगा. परंपरागत तौर पर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डेमोक्रेटिक पार्टी के मतदाता माने जाते हैं लेकिन पिछले चुनावों में बड़ी संख्या

में भारतीय मूल के लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में वोट डाले। कमल हैरिस के डेमोक्रेटिक उप राष्ट्रपति पद के लिए चयन के बाद लगभग 3.9 मिलियन (39 लाख) अधिकांश अमेरिकन भारतीय मतदाताओं का मानना हैं कि उनके पास इस बात की समझ ही नहीं है कि वह किस चीज के लिए खड़ी हैं और वे ना ही स्वयं को भारतीय मूल की महिला मानती हैं। हालांकि, विभिन्न भारतीय—अमेरिकी समूहों को उन पर गर्व भी है, लेकिन लोगों को संदेह है कि हैरिस भारत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में सक्षम होंगी। प्रतिष्ठित ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद्म श्री पुरस्कार विजेता सुभाष कॉक का कहना है कि मैं उनके राजनीतिक स्थिति से निराश हूं जो भारत के अनुकूल नहीं हैं।

अमेरिका में हिंदुओं के हितों का



हिन्दु के संस्थापक आदित्य सत्संगी मानते हैं कि हैरिस को भारतीय-अमेरिकी वोटों को विभाजित करने के लिए डेमोक्रेट द्वारा योजनाबद्ध तरिके से लाया गया है। हैरिस ने हमेशा भारतीय के बजाय अफ्रीकी मूल के होने का दावा किया है रूप में उसका रिकॉर्ड बेहद संदिग्ध है। कुसुम व्यास ने हैरिस के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमें ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने की जरूरत है जो भारत की कश्मीर नीति की आलोचक हैं और पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव रहा है। वे कानूनी आव्रजन प्रक्रिया को समाप्त करने की सिफारिश करती हैं और अवैध आव्रजन का समर्थन करती हैं, जिससे भारत जैसे देशों से कानूनी रूप से आने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा है। अटलांटा की राधिकाँ सूद ने कहाँ कि हैरिस भारत विरोधी, हिंदू विरोधी ब्रिगेड की समर्थक है। उन्होंने कभी भी स्वयं को भारतीय नहीं माना। अमेरिकी भारतीय पाक और चीन समर्थक हैरिस को वोट नहीं देंगे। प्रश्न यह है कि क्या कमला हैरिस अमेरिकन भारतीयों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पाले में से वापिस लाकर जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंचा पाएंगी तथा अपनी जड़ों से जुड़े अमेरिकन हिन्दू अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजयी भूमिका में रहें, इस अग्निपरीक्षा में क्या खरे उतरेंगे? (हिफी)

## सफल सखी टैबलेट के जरिये आनलाइन लेनदेन करेंगी गांव की महिलाएं

#### हिन्दुस्तान जिंक की सखी महिलाएं अब डिजिटल, बदलेगी ग्रामीण महिलाओं की तकदीर और तस्वीर

उदयपुर, 28 अगस्त। 'सफल सखी' टैबलेट अब गांव की महिलाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला है। हिन्दुस्तान जिंक द्वारा मंजरी फाउण्डेशन के सहयोग से डिजिटल लेनदेन और अन्य कार्यों के लिए सखी महिलाओं को टैबलेट उपलब्ध करवाए गए हैं। सफल सखी टैबलेट को वर्चुअल समारोह में हिन्दुस्तान जिंक के मुख्यकार्यकारी अधिकारी अरूण मिश्रा, मंजरी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक संजय शर्मा, हिन्दुस्तान जिंक वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों, मंजरी फाउंडेशन के सदस्यों एवं समूह सखियों की उपस्थिति में लांच किया गया। अब गाँवो में चल रहे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बचत और अन्य लेन देन का संपूर्ण विवरण ऑनलाइन रहेगा। राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा व अजमेर में इस टैबलेट का संपूर्ण संचालन भी चयनित ग्रामीण महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। सफल सखी टैबलेट के वर्चुअल लांच के अवसर पर हिन्दुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण मिश्रा ने कहा कि

अनुसार है एवं यह निश्चित तौर पर सखी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में सफल साबित होगा। महिलाओं को दिया जा रहा है डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण राजस्थान के 5 जिलों में अब

तक 119 समूह सिखयों को सफल सखी टैबलेट के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इस पहल के तहत 193 गांवों की 201 समूह सिखयों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में जून 2020 तक सखी परियोजना के अंतर्गत 1857 सखी समृहों के बैंक खातों से जोड़ा जा चुका है जिनकी सामुहिक बचत 9.60 करोड़ से अधिक है एवं कुल ऋग 28.04 करोड़ है। अब तक 22

## सांसद जोशी आज कोटा और कल जयपुर में

#### कोटा में पत्रकार वार्ता और जयपुर में होगी प्रदेश की बैठक

चित्तौडगढ. 28 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चित्तौडगढ सांसद सी.पी.जोशी शनिवार को कोटा और रविवार को जयपर प्रवास पर रहेंगे।

सांसद प्रवक्ता रघ शर्मा ने बताया कि सांसद सी.पी.जोशी कोटा संभाग प्रभारी के रुप में संभाग मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। सांसद जोशी कोटा संभाग में राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की रूपरेखा और तैयारी पर संभाग के जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। वर्तमान सरकार ने बिजली के क्षेत्र में दरों में जो बढोतरी की है उसके कारण आम उपभोक्ता पर प्रतिमाह 500 रूपये से लेकर 2000 रूपये तक का भार पड़ा है। इसके साथ ही और सरचार्ज लागू करने से 1 हजार चारसौ करोड रुपयों का भार आम आदमी पर पडेगा। बार बार स्थाई शुल्क और फूयूल चार्ज में बढोतरी से कम खपत पर भी बिल की राशि बढ गई है।

#### हाथ धुलाए जाने की शपथ दिलाई गई

भीलवाड़ा, 28 अगस्त। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेशो की पालना में कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करने के बाद राजस्थान में अनेक कदम उठाये गये है, जिसके अपेक्षित परिणाम भी मिले है। परन्तु कोरोना वायरस का अब तक कोई निदान उपलब्ध नहीं होने के कारण यह और भी आवश्यक है कि ग्रामीण समुदाय के बचाव हेतु व्यवहारगत परिवर्तन के लिए लगातार प्रेरित किया जावें। ''बचाव ही उपाय है'' इस बिन्दु को ध्यान में रख कर जिला स्तरीय पर जिला सन्दर्भ समूह की शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारम्भ जिला परिषद् के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री गोपाल राम बिरड़ा, एवं जिला परियोजना समन्वयक, श्री दिनेश चैधरी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा दीप प्रज्जवलन कर हाथ धुलाएं जाने की शपथ दिलाई गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कोविड-19 के बारे में विस्तृत

#### कार्यालय सहायक आयक्त देवस्था विभाग उदयपुर संभाग, उदयपुर

ामसल न. 3.0/2.0.20
ातस्यान लोक राम अधिनियम 1 95.9 की धारा
2.3 (2) के अधीम नोदिस । समस्त सम्बन्धिय व्यक्तियों
के (नाम, वर्णन तथा नियास सम्बन्धिय व्यक्तियों
के (नाम, वर्णन तथा नियास स्थान)
मृक्ति की रामगोमाल कुमावत पिता की जगनाम कुमावत
निवासी बका राम देवरा, वादयोल बाहर उदयपुर (राल.)
ये राजस्थान लोक बार अधिनयम 1 95.9 की धारा
2.3 (2) के अन्तर्गत एंगिनस एक चेरिटेस्त टूट. 1.2
2.3 (2) के अन्तर्गत एंगिनस एक चेरिटेस्त टूट. 1.2
3.व (2) के अन्तर्गत एंगिनस एक चेरिटेस्त टूट. 1.2
3.व के अर्था मार्ग एंग्युस्त व्यक्तियों के नाम व्यक्तियों के स्थान में अप्तास के संबंध भे भग्यासी
परिवर्तन किये जाने के जिए आवेदन -भग्निया है।
वितर खर्ग वाले सम्म व्यक्तियों के मार्ग व्यावक जानकर्ती
के स्थि, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता के कि ये, इस
नोटिस के जारी होने की तारीख के 6.0 दिन के भीतर उस्त
न्यास के सम्बन्ध में आपतियां, यादिकाई से, प्रसुत करिं
व्यविष्ठ के जारी होने की तारीख के 6.0 दिन के भीतर उस्त
व्यक्तियों के भीतर कोई आपतियां प्रसुत नरिक के गई से, वे
वस्त के भीतर कोई आपतियां प्रसुत नरिक के गई से, वे
वस्त आवेदन पत्र निवासित रीति से निर्गित किया जातेया
वाले व्यक्तियां नामले में निवक्तियं अपितिस्तित किया

तथा जांच ग्रसित मामलें में निष्कर्ष अभिलिखित किया

आज दिनांक 24.8.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथ क<u>ार्यालय</u> के मोहर के अधीन जारी किया गया ।

# रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ऋग का लाभ उठाया है।

आय सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऋण भुगतान के लिए समूह

सफल सखी टैबलेट डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के हजार 250 महिलाओं द्वारा कम ब्याज दरों पर आजीविका,

रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 42 वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') द्वार जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 साधारण परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र सं 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जार्र परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020 वे अनुपालन में रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कंपनी') की 42वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम') की सूचना में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के लिए ('सूचना') सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को सुबह 10:15 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडिय वीजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') से आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को केवल ई—मेल के द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं सूचना व वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.reliancechemotex.com और न्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविध के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने के लिए निर्देश व भाग लेने का तरीका सूचना में दिया जाएगा। वीसी / ओएवीएम के माध्या से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ई–मेल आईडी पंजीकत नहीं किया हैं जन्हे कम्पनी के आ टी ए बिग शेयर सर्विसेज पाईवेत लेमिटेड को investor@bigshareonline.com पर ई—मेल भेजने की सलाह जाती है। ई–मेल संचार में सभी विवरण शामिल होने चाहीए जैसे पंजीकृ कोलियो संख्या, प्रमाण पत्र संख्या के अलावा पूर्ण डाक पत्ता, ई—मेल आई*र्ड* फोन न. आदि। पैन और आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति ऊप भेजी जा रही ई–मेल से जुडी होनी चाहिए।

ा आरहा हुन्यार प्रजुज होना पाल्डर। अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नहीं है, उन सदस्यों से अपने संबंधित डीपी के साथ अपने ई–मेल पतों क

रिता है, जा रिता है। उत्तिस्टर करने का अनुरोध है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि 26 जून, 2020 को आयोजित उनकी बैठक कंपनी के निर्देश मंडल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹.10/- के मुल्य वाले पर ₹1/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। एजीएम में सदस्यों द्वारा एक बार अनुमोदन के बाद, अंति लाभांश अपना बैंक खाता विवरण अपडेट कराने वाले शेयरधारकों के खाते विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर मोड द्वारा 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से चुकता किए जाएंगे। जिन शेयरधारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अपडेत नहीं किया है, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / चैक स्थिति सामान्य होने फ उनकें पंजीकृत पतों पर भेज दिए जाएंगे। लाभांश प्राप्त होने में देरी से बच के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि सीधे अपने बैंक खाते लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डीमेट रूप में हैं) और कंपनी के आरटीए (जहां शेयर भौतिक रूप में है) के साथ केवाईर्स अपडेट करा लें।

कंपनी सूचना में वर्णित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग ∕ ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया सूचना में दी गई है।

यह विज्ञापन एमसीए परिपत्रों व सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी सभी सदस्यों को सूचना व लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

चिराग गुप्ता (कम्पनी सचिव)